

LOK SABHA

Wednesday, March 12, 1969 (Phalgun 21, 1890  
(Saka))

*The Lok Sabha met at Eleven of the Clock*

(Mr. Speaker in the Chair)

OBITUARY REFERENCE

MR. SPEAKER : I have to inform the House of the sad demise of Shri N. R. Ghosh, who passed away at New Delhi this morning at the age of 76.

Shri Ghosh was a Member of the Second and Third Lok Sabha during the years 1958—1967. He was also a Member of the Estimates Committee during the years 1958-1959 and Committee on Subordinate Legislation during years 1958—1962. He served on various other Parliamentary Committees also. He made a good contribution in the proceedings of the House and the Committees.

We deeply mourn the loss of this friend and I am sure the House will join me in conveying our condolences to the bereaved family, particularly to our colleague, Shri Perimal Ghosh.

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY AND MINISTER OF PLANNING (SHRIMATI INDIRA GANDHI) : I join you in expressing my sorrow at the sad passing away of Shri N. R. Ghosh. Apart from his contribution to this House, he was involved in many important social causes. He put up destitute Houses and literary societies, was a member of social welfare bodies and was also associated with many educational institutions. The cause of the under-privileged was very dear to his heart and he always raised his voice against the evils of caste and untouchability. He was a man who was widely travelled, widely read, and a man of culture.

I should like to express my grief and give my deepest sympathy to the bereaved family as well as to our colleague, Shri Parimal Ghosh.

SHRI RANGA (Srikakulam) : I join you in this condolence. Mr. N. R. Ghosh was a friend of all of us. He was a colleague of the late Shri Shyama Prasad Mukerjee. He was so keen on the development and protection of our Indian culture. We would like to convey our condolences to his son, Shri Parimal Ghosh, who has risen to be one of the members of our Ministry here.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बनारसपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से श्री एन० धार० घोष के दुःख देहावसान पर शोक प्रकट करता हूँ। मुझे उन्हें निकट से देखने का और उनके साथ कुछ काम करने का भी अवसर मिला था। श्री घोष हमारी उस पुरानी पीढ़ी के व्यक्ति थे जिन्होंने राजनीति को सेवा के रूप में ग्रहण किया, जिन के लिए राजनीति न तो प्रोफेशन बनी, न फैशन बनी, लेकिन एक मिशन के रूप में आई। प्रारम्भ में राष्ट्रीय पुनर्जागरण के भ्रान्दोलन में उनका सहयोग रहा। जैसा आचार्य रंगा जी ने कहा, डाक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के वह निकट सहयोगी थे। हिन्दू महासभा के मंच से उन्होंने जन-जागरण का कार्य किया। बाद में वह कांग्रेस दल से संबंधित हुए और संसद के बाहर और संसद के भीतर हम देश के प्रति अपना कर्तव्य पालन करने में वह निरन्तर जागरूक रहे। सदन की सदस्यता समाप्त होने के बाद भी उनका जीवन सार्वजनिक कार्य-कनापों में सदा व्यस्त रहता था। उनके मिशन से हमारे देश के और विशेषकर पश्चिमी बंगाल के सार्वजनिक जीवन को जो क्षति पहुँची है उसके

[श्री भटल बिहारी बाजपेयी]

प्रति हम सबको खेद है। मैं श्री परिमल घोष और उनके परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति अपनी समवेदना प्रकट करता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि श्री घोष की आत्मा को सद्गति प्रदान करे।

श्री रवि राय (पुरी) : अध्यक्ष महोदय, मैं संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की ओर से और अपनी ओर से आपके साथ और सदन के नेता के साथ श्री एम० आर० घोष के निधन से जो देश को क्षति पहुँची है, उसके लिए शोक प्रकट करता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को हमारी ओर से आप समवेदना भेज दें।

SHRI S. KANDAPPAN (Mettur) : On behalf of the DMK Group in Parliament, I associate myself with the sentiments expressed by you, by the Leader of the House and by the Leaders of the Opposition. I happened to meet him once and he greatly impressed me as a man with a mission. We deeply mourn his loss and I request you to convey our sympathies to the bereaved family and particularly to Shri Parimal Ghosh.

SHRISURENDR ANATH DWIVEDI (Kendrapura) : Shri N. R. Ghosh was a distinguished Member of the Second and the Third Lok Sabha. He was known to me personally, not only politically but also socially connected in several ways. He was a great patriot, and it is to his credit that his son is representing the same constituency which he was representing for two terms. Our sympathies are with Shri Parimal Ghosh who has lost his father and I hope that you will please convey our condolences to the bereaved family.

श्री योगेन्द्र शर्मा (बेगुसराय) : श्री घोष के निधन पर सदन ने जो भावना व्यक्त की है हम अपनी पार्टी के ओर से उस भावना के साथ अपने आपको सम्मिलित करते हैं और श्री परिमल घोष के शोक संतप्त परिवार के प्रति समवेदना जो भेजी जा रही है उसके साथ भी अपने को सम्बद्ध करते हैं।

SHRI MOHAMMAD ISMAIL (Barrackpore) : On behalf of my party, I also join in the condolences expressed. I have full sympathy for the bereaved family. I know Shri N. R. Ghosh. He was a Member of this House. He was also a very prominent man of West Bengal. I knew him for a very long time. On behalf of my party, I join you in expressing my condolences to the members of the bereaved family.

MR SPEAKER : The House may now stand in silence for a short while to express its sorrow.

(The Members then stood in silence for a short while)

#### ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

MR. SPEAKER ; Questions. Question Nos. 421 and 437 may be taken together.

यूरोपीय साम्यवादी देशों द्वारा कमीशन एजेंटों की नियुक्ति  
+

\*421. श्री श्रीकार सिंह :

श्री बंश नारायण सिंह :

क्या बिबेशी ब्यापार तथा पूति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच कि रूस तथा अन्य यूरोपीय साम्यवादी देशों ने भारत से माल खरीदने के लिये कुछ कमिशन एजेंटों की नियुक्ति की है ;

(ख) यदि हाँ, तो उन कमिशन एजेंटों के नाम और पते क्या हैं ;

(ग) गत तीन वर्षों में इन्होंने उन देशों के लिये कितनी मात्रा में माल खरीदा ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस कमीशन एजेंसी की प्रणाली को समाप्त करने का है ?

बैबेशिक ब्यापार तथा पूति मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (घ). सोवियत संघ तथा अन्य पूर्व यूरोपीय देशों के आयात-संगठन तथा उच्चम सामान्यतः भारत से माल खरीदने के लिए सीधे कार्यवाही करते हैं। फिर भी यह संभव है कि